

आर्डर-फार्म
विपश्यना विशोधन विन्यास, धम्मगिरी
मराठी प्रकाशन

M01 जगण्याची कला 1992, पृष्ठ 194, रु. 100/-
हे पुस्तक विल्यम हार्ट यांच्या “आर्ट ऑफ लिव्हिंग” या पुस्तकाचे भाषांतर आहे. यात साधक व इतर सर्वांच्या उपयोगात येईल अशा विपश्यना साधनेबद्दल संपूर्ण माहिती दिलेली आहे.

M02 जागे पावन प्रेरणा 1994, पृष्ठ 226, रु. 90/-
हे पुस्तक, याच नावाच्या हिन्दी पुस्तकाचे भाषांतर आहे. यामध्ये गोंयकारांचे काही लेख दिलेले आहेत ज्यात सोप्या व सुबोध भाषेत बुद्धांचे जीवन व त्यांच्या शिकवणुकी वर प्रकाशात टाकले आहे.

M03 जागे अंतर्बोध 1998, पृष्ठ 104, रु. 45/-
या पुस्तकात दहा-दिवसीय शिबिरातील गोंयकारांच्या प्रवचनांचा सारांश दिलेला आहे.

M04 धर्म: आदर्श जीवनाचा आधार 2007, पृष्ठ 104, रु. 50/-
हे पुस्तक, याच नावाच्या हिन्दी पुस्तकाचे भाषांतर आहे. यात धर्म काय आहे, हे सोप्या व समजण्यासारख्या पद्धतीने सांगितलेले आहे.

M05 जागे अंतर्बोध 2001, पृष्ठ 180, रु. 65/-
हे पुस्तक, याच नावाच्या हिन्दी पुस्तकाचे भाषांतर आहे. हा जागे पावन प्रेरणा पुस्तकात दिलेल्या माहितीचा पुढचा भाग आहे आणि यात बुद्धांच्या शिकवणुकीवर खोलवर प्रकाशात टाकलेला आहे.

M06 निर्मळ धारा धर्माची 2004, पृष्ठ 124, रु. 75/-
“या पुस्तकात श्री. स. ना गोंयकारांनी हैद्राबाद येथे २२ ते २४ जुलै १९९२ ला दिलेल्या तीन भाषणांचा संग्रह आहे. या भाषणात गोंयकारांनी शूद्र धर्माची व्याख्या सांगितलेली आहे. आजकाल धर्म शूद्र रूपात राहिला नसून सांप्रदायिक झाला आहे जसे हिंदू धर्म, जैन धर्म इत्यादी.

M07 महासतिपट्टानसुत्त (समीक्षा) 2006, पृष्ठ 80, रु. 65/-
महासतिपट्टानसुत्त भगवान बुद्धांनी साधनेच्या बाबतीत विस्तारपूर्वक सांगितले आहे. तसेच यामध्ये परिभाषिक शब्दांची व्याख्या दिलेली आहे.

M08 महासतिपट्टानसुत्त (अनुवाद) 2006, पृष्ठ 80, रु. 45/-
महासतिपट्टानसुत्त भगवान बुद्धांनी साधनेच्या बाबतीत विस्तारपूर्वक सांगितले आहे. या पुस्तकात महासतिपट्टानसुत्ताचे अनुवाद आहे.

M09 मंगलमस गृहस्थ जीवन 2006, पृष्ठ 100, रु. 40/-
बुद्धवाणीवर आधारित या पुस्तकात हे समजवून सांगितले आहे की गृहस्थ गृही जीवनात कशाप्रकारे सामंजस्य स्थापित करू शकतो.

M10 भगवान बुद्धांची सांप्रदायिकता-विहित शिकवणूक 2008, पृष्ठ 20, रु. 25/-
या पुस्तकात बुद्धांचे उपदेशांचे वर्णन आहे, जे संपूर्ण विश्वासाठी असून असांप्रदायिक आहेत. त्यासोबतच यात बुद्धांच्या शिकवणुकीचे सार - विपश्यना ध्यान याबाबत माहितीही आहे.

M11 बुद्धजीवन-चिन्तावली 2008, पृष्ठ 76, रु. 330/-
“बुद्धजीवन-चिन्तावली” चे संक्षिप्त वर्णन या पुस्तकात आहे.

M12 आनंद्याच्या वाटेवर 1993 पृष्ठ 48, रु. 150/-
हे पुस्तक लहान मुलांसाठी लिहिले आहे. ह्या पुस्तकात धोडक्यात लहान मुलांसाठी असणाऱ्या “आनापान शिबिराची” माहिती दिलेली आहे.

M13 आत्म-कथन भाग-1 2010, पृष्ठ 128, रु. 65/-
हे पुस्तक गुरुजींची आत्मकथा आहे, ज्यात त्यांनी आपल्या आध्यात्मिक यात्रेचे वर्णन केलेले आहे. यात त्यांचे कवी हृदय आणि स्वदेश प्रेम झळकते.

M14 अरुणाल राजवैद्य जीवक 2010 पृष्ठ 30, रु. 35/-
“या पुस्तकात बुद्धकालीन आयुर्वेद चिकित्सक जीवक जे श्रोतापत्र होते त्यांचा जीवन वृत्तांत दिला आहे. जीवक भगवान बुद्ध आणि त्यांच्या भिक्षुसंघाची चिकित्सा-सेवा करत होते.

M15 महामानव बुद्धांची महान विद्या विपश्यना: उगम आणि विकास 2011, पृष्ठ 136, रु. 190/-
या पुस्तकाचा उद्देश विपश्यना ध्यानाविषयी संक्षेपाने सांगणे हा आहे की जो बुद्धांच्या शिकवणुकीचा सार आहे. याच्यात बुद्धांचे जीवनवृत्ती आहे, त्या लोकांच्या कथाही आहेत ज्यांनी विपश्यनेचा अभ्यास करून लाभ प्राप्त केला.

M16 लोकगुरु बुद्ध 2011, पृष्ठ 12, रु. 10/-
या पुस्तकात भगवान बुद्धांची शिक्षा गृहस्थ आणि भिक्षु सगळ्यांसाठी समान होती याचे वर्णन आहे।

M17 लक्ष्मणक भट्टिय 2011, पृष्ठ 16, रु. 12/-
“या पुस्तकात मधुर स्वर असणाऱ्या भिक्षु श्रावकांमधील अरु लक्ष्मणकभट्टिय यांच्या जीवनाचे संक्षेपात वर्णन केले आहे जे विपश्यनी साधक-साधिकांकरिता प्रेरणादायी आहे.

M18 प्रमुख विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायणजी गोंयन्का यांचा संक्षिप्त जीवन-परिचय 2011, पृष्ठ 32, रु. 30/-
या पुस्तकात विपश्यना ध्यानाचे प्रधान आचार्य श्री सत्य नारायण गोंयकारांच्या जीवनाची लफट्या प्रस्तुत केली गेली आहे. त्यासोबतच त्यांच्या विपश्यना ध्यानाच्या प्रेरक यात्रेचेही वर्णन आहे.

M19 भगवान बुद्धांची अग्रश्राविका किसागोमती 2013, पृष्ठ 40, रु. 30/-
“किसागोमती” आपल्या लाडक्या मुलाचा मृत्यू झाल्यावर भगवान बुद्धांजवळ आली आणि भगवानांची वाणी ऐकून नितांत दुःख-विमुक्तीच्या मार्गावर प्रतिष्ठित झाली.

M20 भगवान बुद्धांची अग्रउपासिका विसाखा मिगारामता 2013, पृष्ठ 80, रु. 40/-
या पुस्तकात दान देण्यात अग्र या बुद्ध शिष्येचे जीवन चरित वर्णित आहे. त्यासोबतच यात आदर्श कन्या, सूत व गृहस्थांकरता कुशल काय आहे - या विषयांवर बुद्धांचे उपदेशही आहेत.

M21 भगवान बुद्धांचे अग्रउपासक अनाथपिण्डिक 2013, पृष्ठ 112, रु. 55/-
या पुस्तकात भगवान बुद्धांचे अग्रश्रावक “अनाथपिण्डिक” - दायक (दान देणारा) मध्ये अग्र यांच्या संक्षिप्त जीवनवृत्तांचे वर्णन आहे.

M22 भगवान बुद्धांचे अग्रउपासक चित्त गृहपति व हृद्यक आळवक 2013, पृष्ठ 60, रु. 30/-
या पुस्तिकेमध्ये बुद्धांवर अपार श्रद्धा असणाऱ्या तसेच त्यांच्या धर्मापदेशांनी खोलवर प्रभावित झालेल्या दोन गृहस्थांच्या प्रेरणादायी जीवनाचे वर्णन आहे.

M23 धम्मपद (पाली-मराठी) 2013, पृष्ठ 104, रु. 50/-
“पाली वादःमयात (लिपिटकात) बुद्धांचे अमूल्य उपदेश संग्रहित आहेत. लिपिटकाचा अर्थ तीन पेटारे आहेत, जे विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक म्हणवले जातात. सूत पिटकाचे विभाजन दीघ, मज्झिम, संयुक्त, अंगुत्तर व खुदक निकायात झाले आहे. धम्मपद खुदकनिकायाचा भाग आहे. हे पुस्तक धम्मपदाचा अनुवाद आहे.

M24 मगधराज सेनिय विम्बिसार 2014, पृष्ठ 120, रु. 50/-
“या पुस्तकात त्यांचे जीवनचरित, त्यांचे शील, बुद्धांबरोबरचे त्यांचे संवाद, दुसऱ्यांच्या जीवनावर त्यांचा प्रभाव आणि विपश्यनेच्या प्रचार-प्रसारामधील त्यांच्या योगदानाचे वर्णन आहे.

M25 महामानव बुद्धांची महान विद्या विपश्यना: उगम आणि विकास 2015, पृष्ठ 260, रु. 525/-
“या पुस्तकाचा उद्देश विपश्यना ध्यानाविषयी संक्षेपाने सांगणे हा आहे की जो बुद्धांच्या शिकवणुकीचा सार आहे. याच्यात बुद्धांचे जीवनवृत्ती आहे, त्या लोकांच्या कथाही आहेत ज्यांनी विपश्यनेचा अभ्यास करून लाभ प्राप्त केला. सहा संगीतीचेही चित्रांच्या माध्यमातून संक्षेपात वर्णन केले आहे, विपश्यना आचार्यांच्या सूत्रलेखेही वर्णन त्यात आहे.

M26 प्रारंभिक पाली 2015, पृष्ठ 156, रु. 65/-
“हे पुस्तक प्रारंभिक पालीपासून हळूहळू पाली शब्दांचे ज्ञान वाढवत वाक्य रचनेद्वारे व्याकरणाचेही ज्ञान देते. पाली शिकणाऱ्या नवीन विद्यार्थ्यांना हे पुस्तक पाली भाषेचा परिचय करून देते.

M27 प्रारंभिक पालीची कुंजी 2015, पृष्ठ 80, रु. 40/-
“वि.वि.वि. द्वारे प्रकाशित प्रारंभिक पालीचा हा दुसरा भाग आहे. ज्याच्यात पाली भाषेच्या विषयी आधारभूत आमुल आहे. प्रारंभिक पालीमध्ये जेवढे अभ्यास आहेत त्यांची उतर या पुस्तकामध्ये आहेत.

M28 भगवान बुद्धांचे महाश्रावक महाकस्सप (पुतांगधारीमध्ये “अग्र”) 2015, पृष्ठ 64, रु. 35/-
या पुस्तकात या महान विपश्यनी साधकाचा जीवनवृत्तांत, बुद्धांबरोबर झालेला त्यांचा वातावरण आणि विपश्यनेच्या प्रचार-प्रसारामधील त्यांचे योगदान वर्णित आहे.

M29 काय बुद्ध दुःखवादी होते? 2015, पृष्ठ 88, रु. 70/-
“बुद्ध दुःखवादी नव्हते. उदाहरणांसहित विस्ताराने याला या पुस्तकात समजावले गेले आहे.

M30 भगवान बुद्धांचे अग्रश्रावक महामोगल्लान 2015, पृष्ठ 100, रु. 45/-
या पुस्तकात भगवान बुद्धांचे अग्रश्रावक “महामोगल्लान” यांच्या संक्षिप्त जीवनवृत्तांचे वर्णन आहे.

M31 धन्य बाबा! 2017, पृष्ठ 134, रु. 55/-
पूज्य गुरुजींच्या बालपणात आपल्या बाबांचा त्यांच्यावर खूप खोलवर प्रभाव पडला. त्याच बाबांच्या प्रति कृतज्ञतेने लिहिलेले त्यांचे दोहे आणि त्यांच्या जीवनातील रोमांचकारी सुमूर्ती या पुस्तकात विस्ताराने लिहिले गेले आहे.

M32 आदर्श दंपती नकुलपिता व नकुलमाता 2017, पृष्ठ 28, रु. 25/-
या पुस्तकात आदर्श दाम्पत्य नकुलपित्यांचे आणि नकुलमातेचे जीवन चरित वर्णित आहे ज्यांना बुद्धांनी क्रमशः उपासक श्रावकांमधून तसेच उपासिका श्राविकांमधून विश्वसनीय रूपाने बोलणाऱ्यांमध्ये अग्र ची उपाधि दिली.

M33 सेना एव उप्पलवणणा 2018, पृष्ठ 40, रु. 30/-
या पुस्तकात भिक्षुणी श्राविकात महाप्रज्ञावतीमध्ये अग्र सेना आणि क्रूद्धीमतीमध्ये अग्र उप्पलवणणा यांच्या जीवनचरितांचे वर्णन आहे.

M34 राहुल एव रट्टपणा 2018, पृष्ठ 64, रु. 40/-
“या पुस्तकात बुद्धांच्या दोन अग्रश्रावकांच्या जीवनावबाबत माहिती आहे- राहुल अणि रट्टपाल

M35 सुखी व्हा! 2019 पृष्ठ 80, रु. 115/-
“या पुस्तकात गोंयकारांच्या बहुआयामी व्यक्तित्वाची रूपरेखा प्रस्तुत केली गेली आहे. तसेच यशस्वी उद्योगकापासून ते कसे प्रधान विपश्यनाचार्य बनले, या यात्रेचे वर्णनही आहे.

M36 राहुलमाता (यशोधरा) 2019 पृष्ठ 40, रु. 30/-
या पुस्तकात यशोधरेचे जीवन चरित वर्णित आहे. त्या सोबतच पूर्वजन्मत सिद्धार्थांसह याला व बहूजन्म हिताय विपश्यनेच्या प्रसारात तिच्या योगदानाचे वर्णनही यात आहे.

M37 भगवान बुद्धांचे सेवक आनन्द (उपस्थाक) 2019, पृष्ठ 216, रु. 90/-
“या पुस्तकात त्यांचे जीवन चरित, धर्माच्या प्रसारात त्यांचे कार्य, भिक्षुणी संघाच्या स्थापनेत त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान तसेच बुद्ध शिकवणुकीला शुद्ध रूपात सुरक्षित ठेवण्यात त्यांचे योगदान यांचे वर्णन आहे.

M38 बाहिय दारुचीरिय आणि भद्र कुडलकेसा 2019, पृष्ठ 32, रु. 30/-
“या पुस्तकात बुद्धांच्या दोन महान अग्रश्रावकांच्या जीवनावबाबत माहिती आहे - बाहिय दारुचीरिय व भद्र कुडलकेसा.

M39 पटाचारा आणि भद्रा कापिलानी 2021, पृष्ठ 36, रु. 40/-
या पुस्तकात विनय धारण करणाऱ्यांमध्ये अग्र असलेली पटाचारा तसेच पूर्व जन्मांचे अनुस्मरण करणाऱ्यांमध्ये अग्र असलेली भद्रा कापिलानी बुद्धांच्या स्त्री शिष्यांमध्ये अग्रणी होत्या. या दोन्ही अग्र- श्राविकांचे जीवन-चरित, त्यांचा गृहस्थ जीवनातील संघर्ष, त्यांचे दुःखातून सुखी होणे तसेच विवशतवेर विजय प्राप्त करण्याची कहाणी वर्णन केली आहे.

M40 आत्म-कथन भाग - २ 2021, पृष्ठ 192, रु. 110/-
या दुसऱ्या भागात गोंयकारांनी अशा व्यक्तींचे जीवन-चरित लिहिले आहे ज्यांचा त्यांच्या जीवनावर खूप प्रभाव पडला.

M41 सोण कोळिविस आणि सोणा 2021, पृष्ठ 24, रु. 35/-
या पुस्तकात दोन्ही अर्थांच्या जीवनाचे वर्णन केले आहे. हे दोघेही संकल्पित वीर्यामध्ये अग्र होते. या पुस्तकात बुद्धांद्वारा त्यांना दिलेल्या निर्देशांचेही वर्णन आहे.

M42 राजधर्म 2003, पृष्ठ 90, रु. 70/-
हे लिपिटक आणि इतिहासावर आधारित असे शोधकारक पुस्तक आहे जे केवळ राजधर्माच्या गुणांना स्वीकारूनच नाही तर त्याप्रमाणे आचरण सुधारण्याचीही प्रेरणा देते.

M43 पुष्पा मन्ताणिपुत्त एव धम्मदिना 2022, पृष्ठ 40, रु. 45/-
पुष्पा मन्ताणिपुत्त व धम्मदिना. बुद्धांनी दौघाशी धार्मिक उपदेश देणाऱ्यांमध्ये अग्रची उपाधी दिली होती. या पुस्तकात त्यांचे जीवन चरित दिले आहे.

M44 भगवान बुद्धांचे अग्रश्रावक सारिपुत्त 2022, पृष्ठ 144, रु. 100/-

या पुस्तकात या महान विपश्यनी साधकांच्या मुक्तीच्या शोधाच्या यात्रेचे वर्णन आहे. सारिपुत्त महाप्रज्ञावानांमध्ये अग्र होते आणि विपश्यनेच्या प्रचार-प्रसारामध्ये त्यांचे योगदान असाधारण होते.

हिन्दी प्रकाशन

H01 निर्मल धारा धर्म की 1995, पृष्ठ 138, रु. 110/-
“धर्म न हिंदू है न बौद्ध, न मुस्लिम है न जैन, न सिक्ख है न ईसाई। धर्म सार्वजनीन है। इन्ही प्रवचनां का संक्षिप्त संकलन इस पुस्तक में संगृहीत है।

H02 प्रवीचन सारांश 1992, पृष्ठ 110, रु. 70/-
“दस-दिवसीय शिविरों में पू. गुरुजी द्वारा दिये गये प्रवचनों का सारांश संकलन है।

H03 जागे पावन प्रेरणा 1994, पृष्ठ 226, रु. 140/-
इस पुस्तक में पू. गुरुजी ने सरल तथा सुस्पष्ट ढंग से बुद्ध का जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन किया है।

H04 जागे अन्तर्बोध 1994, पृष्ठ 190, रु. 110/-
इस पुस्तक में बुद्ध की शिक्षा के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया गया है। सरल तरीके से वर्णन किया गया है ताकि इसे समझने में और जिनका में इसे उतारने में आसानी हो।

H05 धर्म: आदर्श जीवन का आधार 1996, पृष्ठ 94, रु. 65/-
“इस पुस्तक में सरल तरीके से धर्म की व्याख्या की गयी है।

H10 धारण करे तो धर्म 1999, पृष्ठ 180, रु. 140/-
“बुद्ध के जीवन से संबंधित तथा धर्म की व्याख्या करनेवाली प्रेरणादायक कहानियां।

H11 क्या बुद्ध दुःखवादी थे? 2000, पृष्ठ 88, रु. 75/-
“बुद्ध दुःखवादी नहीं थे। उदाहरण के साथ विस्तार से इसे यहाँ समझाया गया है।

H12 मंगल जगे गृही जीवन में 2000, पृष्ठ 100, रु. 80/-
बुद्ध की वाणी पर आधारित इस पुस्तक में यह समझाया है कि गृहस्थ गृही जीवन में कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकता है।

H13 धम्मवाणी संग्रह 2000, पृष्ठ 82, रु. 65/-
विपश्यना (हिन्दी) पत्रिका से विषयवार मूल्यवान संग्रह। इस में पालि गाथाओं के साथ-साथ उनके हिन्दी अनुवाद भी हैं।

H14 विपश्यना पगोडा स्मारिका 2000, पृष्ठ 186, रु. 150/-
“मुंबई के निकट बननेवाले विश्व विपश्यना पगोडा की नींव रखे जाने के शुभ अवसर पर लिखे गये पत्रों का संग्रह।

H15 सुत्तसार - 1 2001, पृष्ठ 232, रु. 180/-
“इसमें दीर्घनिकाय और मज्झिमनिकाय के सुत्तों का सार है।

H16 सुत्तसार - 2 2001, पृष्ठ 204, रु. 110/-
इसमें संयुत्तनिकाय के सुत्तों का सार है।

H17 सुत्तसार - 3 2001, पृष्ठ 168, रु. 90/-
इसमें अंगुत्तरनिकाय और खुदकनिकाय के सुत्तों का सार है।

H18 धन्यवाचा (आत्मकथन) 2002, पृष्ठ 130, रु. 58/-
पूज्य गुरुजी के बचपन में अपने बाबा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं बाबा के प्रति कृतज्ञता में लिखे उनके दोहे और उनके जीवन के रोमांचकारी संस्मरणों को इस पुस्तक में विस्तार से लिखा है।

H19 कल्याणमित्त सत्यनारायण गोंयन्का - व्यक्तित्व और कृतित्व, लेखक - श्री बाल कृष्ण गोंयन्का 2002, पृष्ठ 120, रु. 65/-
“पू. गुरुजी के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का तथा उनके द्वारा विश्व के कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यो का विस्तार से वर्णन है।

H20 पातजल योगसूत्र, लेखक - सत्येन्द्रनाथ टंडन 2003, पृष्ठ 112, रु. 80/-
“यह पुस्तक बुद्ध की शिक्षा के आलोक में योगसूत्रों की व्याख्या करती है। साथ ही दोनों में क्या समानताएं और क्या विशेषताएं हैं इनका भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन करती है।

H21 आहुनेय्य, पाहुनेय्य, अंजलिकरणीय डॉ. ओम प्रकाश जी 2003, पृष्ठ 70, रु. 40/-
डॉ. ओम प्रकाश स. ना. गोंयन्का के पारिवारिक डॉक्टर तथा मित्र थे। इस पुस्तक में उनका जीवन चरित है। विपश्यना के प्रचार-प्रसार में उनके अमूल्य योगदान तथा सादा जीवन साथ ही उनके विनोदी और नम्र स्वभाव, दूसरों के प्रति उनकी क्षिता तथा दुःख के समय में उनका शांत रहने का स्वभाव का भी वर्णन है।

H22 राजधर्म 2003, पृष्ठ 84, रु. 45/-
“इसमें यह भी वर्णित है कि राजा अशोक ने कैसे बुद्ध की शिक्षा से सीख लेकर आंतरिक तथा बाह्य शलुओं से रक्षा करने के लिए राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त और शक्तिशाली बनाया जाय।

H23 आत्म-कथन भाग 1 2003, पृष्ठ 112, रु. 55/-
“यह पूज्य गुरुजी की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सजीव वर्णन किया है। इसमें उनका कवि हृदय और स्वदेश प्रेम भी झलकता है।

H28 अंगुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद) भाग-1 2004, पृष्ठ 336, रु. 160/-
“इस पुस्तक में एकम निपात से लेकर एकादशक निपात में एक से लेकर उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम से प्यारह धर्मों के संबंध में भगवान बुद्ध के उपदेश संगृहीत हैं।

H29 केंद्रीय कारागृह जयपुर, विपश्यना का प्रथम जेल शिविर 2005, पृष्ठ 92, रु. 50/-

इसमें “जेलों में विपश्यना” का एक ऐतिहासिक पर्यवेक्षण, जेल-शिविर के बारे में किये गये शोधकार्य, शिविर में भाग लेनेवाले बंदियों में से हत्या के आरोप के बंद 24 बंदियों के अनुभव, बुद्धवाणी के संदर्भ में शिविरार्थियों के अनुभवों की समीक्षा मृत्युदंड प्राप्त कैदी विपश्यना के प्रभाव से प्रसन्न मुद्रा से फांसी के तख्ते पर चढ़ा, बुद्ध द्वारा अनुदेशित अर्द्धसंगमल-धर्म, शिविर काल के चित्त इ. प्रस्तुत है।

H30 विपश्यना - लोकमत भाग-1 2005, पृष्ठ 132, रु. 65/-
“इसमें विपश्यना के बारे में “लोकमत” जानने के लिए विपश्यना शिविर में भाग लेने वाले साधकों-साधिकाओं के लेख एवं दस-दिवसीय शिविर के दसवें दिन निजी अनुभवों की जानकारी प्रस्तुत है।

H31 विपश्यना - लोकमत भाग-2 2005, पृष्ठ 168, रु. 70/-
“इसमें विपश्यना के बारे में “लोकमत” जानने के लिए विपश्यना शिविर में भाग लेने वाले साधकों-साधिकाओं के लेख एवं दस-दिवसीय शिविर के दसवें दिन निजी अनुभवों की जानकारी प्रस्तुत है।

H32 अग्रपाल राजवैद्य जीवक 2005, पृष्ठ 40, रु. 30/-
“इस पुस्तक में बुद्धकालीन आयुर्वेद चिकित्सक जीवक का, जो श्रोतापत्र थे उनका जीवन वृत्तांत दिया हुआ है। जीवक भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुसंघ की चिकित्सा-सेवा करते थे।

H33 अहिंसा किसे कहें? 2006, पृष्ठ 32, र. 30/-
इस पुस्तक में विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायणजी गौयन्का का सार्वजनिक प्रवचन है।
H34 सम्राट अशोक के अभिलेख 2006, पृष्ठ 168, र. 125/-
"भारत तथा उससे बाहर के देशों में सम्राट अशोक के अभी तक 42 अभिलेख खोजे जा चुके हैं।"
H35 प्रमुख विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायणजी गौयन्का का संक्षिप्त जीवन-परिचय 2006, पृष्ठ 28, र. 30/-

इस पुस्तक में विपश्यना ध्यान के प्रधान आचार्य श्री सत्यनारायण गौयन्का के जीवन की झांकियाँ प्रस्तुत की गयी हैं।
H36 गौतम बुद्ध: जीवन-परिचय और शिक्षा 2006, पृष्ठ 36, र. 50/-
इस पुस्तक में महामानव बुद्ध का जीवन तथा उनकी शिक्षा वर्णित है। इसमें छह संगीतियों का भी वर्णन है।
H37 भगवान बुद्ध के महाश्रावक लकुण्डक भद्रिय 2006, पृष्ठ 16, र. 35/-

"इस पुस्तक में मधुर स्वर वाले भिक्षु श्रावकों में अग्र लकुण्डकभद्रिय की जीवनी संक्षेप में वर्णित है जो विपश्यी साधकों तथा साधिकाओं के लिए प्रेरणादायी है।"
H38 धम्म-वंदना (पालि-हिन्दी) 2006, पृष्ठ 104, र. 90/-
इस पुस्तक में गौयन्काजी द्वारा हिन्दी भाषा में किये प्रातःकालीन वंदना का अनुवाद है। साधकों को यह पुस्तक उनके अर्थ समझने में सहायता करेगी।
H39 धम्मपद (पालि-हिन्दी) 2001, पृष्ठ 100, र. 55/-

"सुत्तपिटक का विभाजन पांच निकायों में जैसे- दीघ, मज्झिम, संयुत्त, अङ्गुत्तर और खुदक निकाय में हुआ। धम्मपद खुदकनिकाय का भाग है। यह पुस्तक धम्मपद का अनुवाद है। इसमें 26 वर्णों में 423 गाथाओं का संकलन है।"
H40 महासतिपट्टानसुत्त (समीक्षा के साथ अनुवाद) 1996, पृष्ठ 140, र. 90/-
महासतिपट्टानसुत्त में भगवान बुद्ध ने साधना के बारे में विस्तार से बताया है। यह पुस्तक इस सुत्त का अनुवाद है। साथ ही इसमें पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या भी दी गयी है।
H41 महासतिपट्टानसुत्त (अनुवाद) 1996, पृष्ठ 64, र. 40/-

महासतिपट्टानसुत्त में भगवान बुद्ध ने साधना के बारे में विस्तार से बताया है। इस पुस्तक में महासतिपट्टानसुत्त का अनुवाद है।
H42 भगवान बुद्ध की साम्प्रदायिकता-विहीन शिक्षा 2007, पृष्ठ 20, र. 20/-
"इस पुस्तक में बुद्ध के उपदेश वर्णित हैं जो विश्वजीन होने के साथ-साथ असंप्रदायिक हैं। साथ ही इसमें बुद्ध की शिक्षा का सार विपश्यना ध्यान का आमुख भी है।"
H43 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-1 2008, पृष्ठ 152, र. 75/-

तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H44 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-2 2008, पृष्ठ 188, र. 115/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H45 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-3 2008, पृष्ठ 196, र. 90/-

तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H46 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-4 2008, पृष्ठ 176, र. 75/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H47 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-5 2008, पृष्ठ 188, र. 80/-

तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H48 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-6 2008, पृष्ठ 205, र. 85/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H50 क्या बुद्ध नास्तिक थे? 2008, पृष्ठ 228, र. 100/-

इस पुस्तक में नास्तिक शब्द का अर्थ दिया गया है और बुद्ध तथा बुद्धपूर्वकाल में इसका क्या अर्थ था यह भी दिखाया गया है। इस बात का भी यहाँ उल्लेख है कि बुद्ध को जीवनभर अनेक प्रकार की आलोचनाएँ सुननी पड़ी, विशेष कर नास्तिक के रूप में।
H51 भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक महामोगल्लान 2008, पृष्ठ 104, र. 50/-
इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक "महामोगल्लान" के संक्षिप्त जीवनवृत्त का वर्णन है।
H52 महामानव बुद्ध की महान विद्या : विपश्यना का उद्गम और विकास 2009, पृष्ठ 260, र. 625/-

"इस पुस्तक का उद्देश्य विपश्यना ध्यान के बारे में संक्षेप में बताना है जो बुद्ध की शिक्षा का सार है। इसमें बुद्ध के जीवनवृत्त भी है, उन लोगों की कहानियाँ भी हैं जिन्होंने विपश्यना का अभ्यास कर लाभ प्राप्त किया।"
H53 भगवान बुद्ध के महाश्रावक महाकसिप 2009, पृष्ठ 68, र. 45/-
इस पुस्तक में इन महान विपश्यी साधक का जीवनवृत्त, बुद्ध के साथ उनके वार्तालाप और विपश्यना के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान वर्णित है।
H54 मंगल हुआ प्रभात 1990, पृष्ठ 274, र. 200/-
प. गुरुजी द्वारा प्रणीत दोहों का एक अमूल्य संग्रह। साधकों तथा अन्यो द्वारा प्रशंसित।
H55 महामानव बुद्ध की महान विद्या : विपश्यना का उद्गम और विकास 2010, पृष्ठ 136, र. 210/-

"इस पुस्तक का उद्देश्य विपश्यना ध्यान के बारे में संक्षेप में बताना है जो बुद्ध की शिक्षा का सार है। इसमें बुद्ध के जीवनवृत्त भी है, उन लोगों की कहानियाँ भी हैं जिन्होंने विपश्यना का अभ्यास कर लाभ प्राप्त किया। छः संगानियों का भी संक्षेप में वर्णन चित्तों के माध्यम से है, विपश्यना आचार्यों की श्रृंखला का भी वर्णन है।"
H56 अनाथपिण्डिक 2010, पृष्ठ 112, र. 50/-
इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक "अनाथपिण्डिक"- दायकों (दान देने वालों) में अग्र के संक्षिप्त जीवनवृत्त का वर्णन है।
H57 किसानगोतमी 2010, पृष्ठ 40, र. 35/-

"किसांगोतमी" अपने प्यारे बच्चे की मृत्यु होने पर भगवान बुद्ध के पास आयी और भगवान की वाणी सुनकर नितांत दुःख-विमुक्ति के मार्ग पर प्रतिष्ठित हुई।
H58 चित्त गृहपति एवं हत्यक आठवक 2010, पृष्ठ 60, र. 35/-
इस पुस्तक में बुद्ध में अपार श्रद्धा रखने वाले तथा उनके धर्मोपदेश से गहरे रूप से प्रभावित दो गृहस्थों की प्रेरणादायिनी जीवनियाँ वर्णित हैं।
H59 सुशियों की राह 1993, पृष्ठ 40, र. 225/-
"पालि ग्रंथों से बच्चों को आनापान ध्यान की भवना सिखाने के लिए यह बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है।"
H60 प्रारंभिक पालि 2011, पृष्ठ 150 र. 110/-

यह पुस्तक पालि प्रवेशिका की तरह है जिसमें धीरे-धीरे पालि शब्दों की संख्या क्रमशः बढ़ाते हुए वाक्य विन्यास द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है।
H61 प्रारंभिक पालि की कुंजी 2011, पृष्ठ 72, र. 80/-
"पालि प्रारंभ में जितने भी अन्वय हैं उनका उत्तर इस पुस्तक में है।"
H62 विसाखा मिगरमाता 2011, पृष्ठ 76, र. 45/-
"इस पुस्तक में अरिदशी नारी एवं भगवान बुद्ध में अत्यंत श्रद्धा रखने वाली, दान देनेवालीयों में अग्र विसाखा मिगरमाता का जीवन वृत्तान्त तो है ही साथ ही आदर्श नारी के गुणों का भी वर्णन है।"
H63 मगराज सेनिय विम्बिसार 2010, पृष्ठ 116, र. 55/-
"इस पुस्तक में उनका जीवनचरित, उनके शील बुद्ध के साथ उनके संवाद, दूसरों के जीवन पर उनका प्रभाव और विपश्यना के उनके प्रचार-प्रसार में उनके योगदान का वर्णन है।"
H64 बुद्धसहस्रनामावली (पालि एवं हिंदी) 2010, पृष्ठ 70, र. 35/-

इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के हजार नामों की श्रृंखला पालि तथा हिन्दी भाषा में है। सभी नाम भगवान के गुणवाची हैं जिनका बोध हर विपश्यी साधक को होना चाहिए।
H65 भगवान बुद्ध के उपस्थाक आनन्द 2011, पृष्ठ 222, र. 100/-
"इस पुस्तक में उपस्थाक आनंद का जीवन चरित, धर्म के प्रसार में उनके कार्य तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान तथा शिक्षाओं को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने में उनके योगदान का वर्णन है।"
H66 जीने की कला 2011, पृष्ठ 180, र. 125/-
"यह पुस्तक स. ना. गौयन्का के लेखों तथा प्रवचनों पर आधारित है। विपश्यना साधना की भूमिका देने के साथ-साथ यह भी बताती है कि कैसे इस तपस्वी का प्रयोग समस्याओं को सुलझाने में किया जा सकता है, कैसे हम अपनी असामान्य अन्तःशक्ति का विकास कर सकते हैं।"
H67 परम तपस्वी श्री रामसिंह जी 2011, पृष्ठ 144, र. 110/-

"इस पुस्तक में एक वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारी तथा विपश्यना के सहायक आचार्य रामसिंहजी के जीवनचरित और उदार प्रकृति का वर्णन है। कारागारों में विपश्यना के प्रयोग के वे प्रेरक शक्ति थे।"
H68 भगवान बुद्ध की अयुपासिकाएँ सुखुत्तरा एवं सामावती तथा उत्तरानन्दमाता 2011, पृष्ठ 44, र. 35/-
इस पुस्तक में बहुश्रुतों में अग्र सुखुत्तरा, मैतृविहार करने वालीयों में अग्र सामावती तथा ध्यानियों में अग्र उत्तरानन्दमाता का जीवन संक्षेप में वर्णित है।
H69 तिक-पट्टान (संक्षिप्त रूपरेखा) 2012, पृष्ठ 64, र. 40/-
इस छोटी-सी पुस्तक में तिकपट्टान में विस्तार से व्याख्यायित 24 अर्थवाक्य का संक्षेप में वर्णन है। इसमें मूल पालि उसका हिन्दी अनुवाद तथा उसकी समीक्षा दृष्टांतों के साथ दी गयी है।
H70 आदर्श दंपति नकुलपिता एवं नकुलमाता 2012, पृष्ठ 28, र. 25/-

इस पुस्तक में आदर्श दंपति नकुलपिता और नकुलमाता के जीवन चरित वर्णित हैं जिनको बुद्ध ने क्रमशः उपासक श्रावकों तथा उपासिका श्राविकाओं में विश्वस्त रूप से बातचीत करने वालों में अग्र की उपाधि दी।
H71 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 1 2012, पृष्ठ 224, र. 80/-
"इस पुस्तक में जुलाई 1971 से जून 1974 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।"
H72 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 2 2012, पृष्ठ 208, र. 75/-
"इस पुस्तक में जुलाई 1974 से जून 1977 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।"
H73 बाहिय दारुचीरिय एवं भद्रा कुण्डलकेसा 2013 पृष्ठ 44, र. 30/-

इस पुस्तक में क्षिप्र अभिज्ञा प्राप्त करने वाले भिक्षु श्रावकों में अग्र बाहिय दारुचीरिय तथा भिक्षुणी श्राविकाओं में अग्र भद्रा कुण्डलकेसा का जीवन संक्षेप में वर्णित है।
H74 राहुल एवं रुद्रपाल 2013 पृष्ठ 64, र. 40/-
"इस पुस्तक में शिक्षाकारी भिक्षु श्रावकों में अग्र राहुल तथा श्रद्धा से प्रव्रजितों में अग्र रुद्रपाल की जीवनी संक्षेप में वर्णित है जो विपश्यी साधकों तथा साधिकाओं के लिए प्रेरणादायी है।"
H75 पुण्य मन्ताणित्तु एवं धम्मदित्रा 2013 पृष्ठ 48, र. 30/-
धर्मकायिक भिक्षु श्रावकों में अग्र पुण्य मन्ताणित्तु एवं धर्मकथिका भिक्षुणी श्राविकाओं में अग्र धम्मदित्रा का जीवन इस पुस्तिका में वर्णित है।
H76 भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्त 2013, पृष्ठ 152, र. 65/-
इस पुस्तक में महाप्राज्ञवान भिक्षु श्रावकों में अग्र की उपाधि प्राप्त करने वाले सारिपुत्त की जीवनी संक्षेप में वर्णित है। ये कैसे बुद्ध के शिष्य बने- इसका भी यहाँ बड़ा ही रोचक वर्णन है।
H77 बरमा में लिखी गयी मेरी कविताएँ 2013, पृष्ठ 196, र. 300/-
"इस पुस्तक में लिखी गयी मेरी कविताएँ भिक्षुणी द्वारा युवावस्था में अपनी मातृभूमि बरमा में हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा में लिखी गयी कविताओं का संग्रह है।"
H78 सांग कोठिविस एवं सांग 2013 पृष्ठ 36, र. 30/-
"इस पुस्तक में दोनों अग्रों के जीवन वर्णित हैं। ये दोनों ही संकल्पित वीर्यों में अग्र थे। इस पुस्तक में बुद्ध द्वारा इन्हें जो निर्देश दिये गये हैं वे भी वर्णित हैं।"
H79 भगवान बुद्ध के महाश्रावक आयुमान अनुरुद्ध 2014 पृष्ठ 48, र. 55/-

इस पुस्तक में भिक्षु-श्रावकों में दिव्यचक्षु वालों में अग्र अनुरुद्ध का जीवन-चरित वर्णित है।
H80 राहुलमाता (यशोधरा) 2014 पृष्ठ 48, र. 35/-
"इस पुस्तक में यशोधरा का जीवन चरित वर्णित है। साथ ही पूर्वजन्मों में सिद्धार्थ के साथ याला तथा बहजन हिताय विपश्यना के प्रसार में उसके योगदान का भी वर्णन है।"
H81 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 3 2014 पृष्ठ 172, र. 74/-
इस पुस्तक में जुलाई 1977 से जून 1980 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।"
H82 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 4 2014 पृष्ठ 200, र. 84/-
"इस पुस्तक में जुलाई 1980 से जून 1983 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।"
H83 खेमा एवं उपपलवण्णा 2014 पृष्ठ 48, र. 30/-
"इस पुस्तक में भिक्षुणी श्राविकाओं में अग्र- महाप्राज्ञावतियों में अग्र खेमा तथा ऋद्धिमतियों में अग्र उपपलवण्णा का जीवन-चरित वर्णित है।"
H84 पट्टाचारा एवं भद्रा कापिलानी 2014 पृष्ठ 44, र. 30/-
"इस पुस्तक में भिक्षुणी श्राविकाओं में विनयधारियों में अग्र पट्टाचारा तथा पूर्वजन्म स्मरण करने वालीयों में अग्र भद्रा कापिलानी के जीवन-चरित का वर्णन है।"
H85 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 5 2015, पृष्ठ 206, र. 80/-
इस पुस्तक जुलाई 1983 से जून 1986 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।
H86 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 6 2015, पृष्ठ 216, र. 85/-
इस पुस्तक जुलाई 1986 से जून 1989 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।
H87 आत्म-कथन भाग-2 2016 पृष्ठ 192, र. 100/-
यह पुस्तक वस्तुतः गौयन्काजी की स्वाध्याय से स्वानुभूति की यात्रा का रेखा-चित्र प्रस्तुत करती है। रहस्य तथा तुलसी के साहित्य से उनके गुरु कल्याणदत्त दुबे जी ने अमृत निकालकर उन्हे दिया।
H88 भगवान बुद्ध की अग्रश्राविका महापजापति गोतमी 2015, पृष्ठ 44, र. 30/-

"इस पुस्तक में भिक्षुणी श्राविकाओं में दीर्घकालीनों में अग्र महापजापति गोतमी का जीवन-चरित वर्णित है।"
H89 चार महत्त्वपूर्ण लेख: लोक गुरु बुद्ध, देश की बाह्य सुरक्षा, गणराज्य की सुरक्षा कैसे हो, शाक्यों और कोलियों के गणतंत्र का विनाश क्यों हुआ? 2016 पृष्ठ 60, र. 60/-
इस पुस्तक में श्री सत्यनारायण गौयन्का द्वारा लिखित लोकगुरु बुद्ध, देश की बाह्य सुरक्षा, गणराज्य की सुरक्षा कैसे हो, शाक्यों और कोलियों के गणतंत्र का विनाश क्यों हुआ?, चार महत्त्वपूर्ण लेखों का संग्रह है।
H90 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 7 2016, पृष्ठ 252, र. 100/-
यह पुस्तक जुलाई 1989 से जून 1992 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।
H91 मेताविहारिणी माताजी 2016, पृष्ठ 130, र. 80/-
"इस पुस्तक में धर्मयान का दूसरा चक्रा सदा मौन और शांत रहकर प. गुरुजी का साथ देने वाली, करुणा और शांति की दूत, सरलता एवं मातृत्व का मूर्त रूप श्रीमती इलायची देवी गौयन्का के बारे में साधिकाओं के विचार अंकित हैं।"
H92 भगवान बुद्ध के महाश्रावक उपालि 2017, पृष्ठ 44, र. 30/-
"इस पुस्तक में भिक्षु-श्रावकों में विनयधरों में अग्र उपालि का जीवन-चरित वर्णित है।"
H93 मगधनरेश वैदेहीपुत्र अजातशत्रु 2017, पृष्ठ 60, र. 40/-

इस पुस्तक में वैदेहीपुत्र अजातशत्रु का जीवनवृत्त, बुद्ध के संपर्क में आकर जीवन में बदलाव और भगवान का धातु-सुरक्षा के लिए धातुनिधान बनने में इनका योगदान वर्णित है।
H94 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 8 2017, पृष्ठ 256, र. 110/-
यह पुस्तक जुलाई 1992 से जून 1995 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।
H95 पातुसल्ल योग: एक सार्वजनिक प्रवचन 2017, पृष्ठ 30, र. 30/-
इस पुस्तक में 1988 में जयपुर में हुए योग सम्मेलन में विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गौयन्काजी द्वारा दिया गया एक सार्वजनिक प्रवचन है जिसमें योग और विपश्यना की समानता के बारे में विस्तार से बताया है।
H96 भगवान बुद्ध के श्रावक अञ्जासिकोण्डञ्ज 2017, पृष्ठ 32, र. 30/-

"इस पुस्तक में भिक्षुश्रावकों में राज्ञों में अग्र अञ्जासिकोण्डञ्ज की जीवनी संक्षेप में वर्णित है।"
H97 सुखी हों 2017, पृष्ठ 84, र. 130/-
इस पुस्तक में गौयन्काजी के बहुआयामी व्यक्तित्व की झांकियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। साथ ही सफल व्यापारी से वे कैसे प्रधान विपश्यचार्य बने- इस यात्रा का भी वर्णन है।
H98 कोसलराज पसेनदि (कोशराजस्य प्रसेनजित) 2018, पृष्ठ 104, र. 55/-
इस पुस्तक में कोशराजस्य प्रसेनजित का जन्म, उनकी कार्यकुशलता, बुद्ध, धर्म और संघ की निकटता तथा उनके जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन है।
H99 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 9 2018, पृष्ठ 264, र. 120/-
इस पुस्तक जुलाई 1995 से जून 1998 तक विपश्यना पत्रिका में गौयन्काजी तथा और साधकों के अपने अनुभव पर आधारित धर्म के बारे में लिखे गये लेखों का संग्रह है।
H100 भगवान बुद्ध के श्रावकमहाकप्पिन थेर 2018, पृष्ठ 24, र. 30/-
"इस पुस्तक में भिक्षुओं को उपदेश करने वालों में अग्र महाकप्पिन थेर की जीवनी संक्षेप में वर्णित है। जो विपश्यी साधकों तथा साधिकाओं के लिए प्रेरणादायी है।"
H101 सुत्तनिपात-अट्टकथा भाग - 1 (अजित्ठ) 2019, पृष्ठ 296, र. 300/-
सुत्तनिपात खुदकनिकाय का एक ग्रंथ है। इस पुस्तक में कैसे मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है। इस पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है। इसमें शब्दों के अर्थ के साथ-साथ कथाएँ भी दी गयी हैं।
H102 सुत्तनिपात-अट्टकथा भाग - 1 (सजित्ठ) 2019, पृष्ठ 296, र. 450/-
देखें सुत्तनिपात अट्टकथा भाग-1 (अजित्ठ)
H103 पूज्य गुरुजी एवं माताजी के बारे में साधकों के संस्मरण 2019, पृष्ठ 208, र. 100/-

इस पुस्तक में उन साधक-साधिकाओं तथा गुरुजी एवं माताजी के साथ काम करने वाले लोगों को अनुभव है- जिन्होंने उनके विपश्यना सीख कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पुस्तक के प्रारंभ में पूज्य गुरुजी की किशोर अवस्था की एक साहसिक एवं मार्मिक घटना का उन्हीं की की कलम से उल्लेख किया गया है।
H104 सय्याजी ऊ बा खिन जर्नल 2020, पृष्ठ 312, र. 270/-
यह पुस्तक म्यांमा के उत्कृष्ट सरकारी सेवक तथा स. ना. गौयन्का के आचार्य सय्याजी ऊ बा खिन के प्रति श्रद्धांजलि है। इसमें गुरुजी तथा माताजी इलायची देवी के विभिन्न अवसरों पर लिए गये साक्षात्कार भी हैं। गौयन्काजी द्वारा नियुक्त प्रमुख वरिष्ठ आचार्यों द्वारा धर्मपथ पर चलने की अपनी यात्रा का वर्णन है।

"इस पुस्तक में मधुर स्वर वाले भिक्षु श्रावकों में अग्र लकुण्डकभद्रिय की जीवनी संक्षेप में वर्णित है जो विपश्यी साधकों तथा साधिकाओं के लिए प्रेरणादायी है।"
H38 धम्म-वंदना (पालि-हिन्दी) 2006, पृष्ठ 104, र. 90/-
इस पुस्तक में गौयन्काजी द्वारा हिन्दी भाषा में किये प्रातःकालीन वंदना का अनुवाद है। साधकों को यह पुस्तक उनके अर्थ समझने में सहायता करेगी।
H39 धम्मपद (पालि-हिन्दी) 2001, पृष्ठ 100, र. 55/-
"सुत्तपिटक का विभाजन पांच निकायों में जैसे- दीघ, मज्झिम, संयुत्त, अङ्गुत्तर और खुदक निकाय में हुआ। धम्मपद खुदकनिकाय का भाग है। यह पुस्तक धम्मपद का अनुवाद है। इसमें 26 वर्णों में 423 गाथाओं का संकलन है।"
H40 महासतिपट्टानसुत्त (समीक्षा के साथ अनुवाद) 1996, पृष्ठ 140, र. 90/-
महासतिपट्टानसुत्त में भगवान बुद्ध ने साधना के बारे में विस्तार से बताया है। यह पुस्तक इस सुत्त का अनुवाद है। साथ ही इसमें पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या भी दी गयी है।
H41 महासतिपट्टानसुत्त (अनुवाद) 1996, पृष्ठ 64, र. 40/-
महासतिपट्टानसुत्त में भगवान बुद्ध ने साधना के बारे में विस्तार से बताया है। इस पुस्तक में महासतिपट्टानसुत्त का अनुवाद है।
H42 भगवान बुद्ध की साम्प्रदायिकता-विहीन शिक्षा 2007, पृष्ठ 20, र. 20/-
"इस पुस्तक में बुद्ध के उपदेश वर्णित हैं जो विश्वजीन होने के साथ-साथ असंप्रदायिक हैं। साथ ही इसमें बुद्ध की शिक्षा का सार विपश्यना ध्यान का आमुख भी है।"
H43 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-1 2008, पृष्ठ 152, र. 75/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H44 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-2 2008, पृष्ठ 188, र. 115/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H45 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-3 2008, पृष्ठ 196, र. 90/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H46 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-4 2008, पृष्ठ 176, र. 75/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H47 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-5 2008, पृष्ठ 188, र. 80/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H48 तिपिटक में सम्यक संबुद्ध, भाग-6 2008, पृष्ठ 205, र. 85/-
तिपिटक के आधार पर बुद्ध के उपदेशों की गहन व्याख्या। प. गुरुजी ने बुद्ध के उपदेशों को सविस्तार, पालि के बहुत से उद्धरण तथा उनके हिन्दी में अर्थ देकर समझाया है।
H50 क्या बुद्ध नास्तिक थे? 2008, पृष्ठ 228, र. 100/-
इस पुस्तक में नास्तिक शब्द का अर्थ दिया गया है और बुद्ध तथा बुद्धपूर्वकाल में इसका क्या अर्थ था यह भी दिखाया गया है। इस बात का भी यहाँ उल्लेख है कि बुद्ध को जीवनभर अनेक प्रकार की आलोचनाएँ सुननी पड़ी, विशेष कर नास्तिक के रूप में।
H51 भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक महामोगल्लान 2008, पृष्ठ 104, र. 50/-
इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक "महामोगल्लान" के संक्षिप्त जीवनवृत्त का वर्णन है।
H52 महामानव बुद्ध की महान विद्या : विपश्यना का उद्गम और विकास 2009, पृष्ठ 260, र. 625/-

"इस पुस्तक का उद्देश्य विपश्यना ध्यान के बारे में संक्षेप में बताना है जो बुद्ध की शिक्षा का सार है। इसमें बुद्ध के जीवनवृत्त भी है, उन लोगों की कहानियाँ भी हैं जिन्होंने विपश्यना का अभ्यास कर लाभ प्राप्त किया।"
H53 भगवान बुद्ध के महाश्रावक महाकसिप 2009, पृष्ठ 68, र. 45/-
इस पुस्तक में इन महान विपश्यी साधक का जीवनवृत्त, बुद्ध के साथ उनके वार्तालाप और विपश्यना के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान वर्णित है।
H54 मंगल हुआ प्रभात 1990, पृष्ठ 274, र. 200/-
प. गुरुजी द्वारा प्रणीत दोहों का एक अमूल्य संग्रह। साधकों तथा अन्यो द्वारा प्रशंसित।
H55 महामानव बुद्ध की महान विद्या : विपश्यना का उद्गम और विकास 2010, पृष्ठ 136, र. 210/-

"इस पुस्तक का उद्देश्य विपश्यना ध्यान के बारे में संक्षेप में बताना है जो बुद्ध की शिक्षा का सार है। इसमें बुद्ध के जीवनवृत्त भी है, उन लोगों की कहानियाँ भी हैं जिन्होंने विपश्यना का अभ्यास कर लाभ प्राप्त किया। छः संगानियों का भी संक्षेप में वर्णन चित्तों के माध्यम से है, विपश्यना आचार्यों की श्रृंखला का भी वर्णन है।"
H56 अनाथपिण्डिक 2010, पृष्ठ 112, र. 50/-
इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक "अनाथपिण्डिक"- दायकों (दान देने वालों) में अग्र के संक्षिप्त जीवनवृत्त का वर्णन है।
H57 किसानगोतमी 2010, पृष्ठ 40, र. 35/-

"किसांगोतमी" अपने प्यारे बच्चे की मृत्यु होने पर भगवान बुद्ध के पास आयी और भगवान की वाणी सुनकर नितांत दुःख-विमुक्ति के मार्ग पर प्रतिष्ठित हुई।
H58 चित्त गृहपति एवं हत्यक आठवक 2010, पृष्ठ 60, र. 35/-
इस पुस्तक में बुद्ध में अपार श्रद्धा रखने वाले तथा उनके धर्मोपदेश से गहरे रूप से प्रभावित दो गृहस्थों की प्रेरणादायिनी जीवनियाँ वर्णित हैं।
H59 सुशियों की राह 1993, पृष्ठ 40, र. 225/-
"पालि ग्रंथों से बच्चों को आनापान ध्यान की भवना सिखाने के लिए यह बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है।"
H60 प्रारंभिक पालि 2011, पृष्ठ 150 र. 110/-
यह पुस्तक पालि प्रवेशिका की तरह है जिसमें धीरे-धीरे पालि शब्दों की संख्या क्रमशः बढ़ाते हुए वाक्य विन्यास द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है।
H61 प्रारंभिक पालि की कुंजी 2011, पृष्ठ 72, र. 80/-
"पालि प्रारंभ में जितने भी अन्वय हैं उनका उत्तर इस पुस्तक में है।"
H62 विसाखा मिगरमाता 2011, पृष्ठ 76, र. 45/-
"इस पुस्तक में अरिदशी नारी एवं भगवान बुद्ध में अत्यंत श्रद्धा रखने वाली, दान देनेवालीयों में अग्र विसाखा मिगरमाता का जीवन वृत्तान्त तो है ही साथ ही आदर्श नारी के गुणों का भी वर्णन है।"
H63 मगराज सेनिय विम्बिसार 2010, पृष्ठ 116, र. 55/-
"इस पुस्तक में उनका जीवनचरित, उनके शील बुद्ध के साथ उनके संवाद, दूसरों के जीवन पर उनका प्रभाव और विपश्यना के उनके प्रचार-प्रसार में उनके योगदान का वर्णन है।"
H64 बुद्धसहस्रनामावली (पालि एवं हिंदी) 2010, पृष्ठ 70, र. 35/-
इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के हजार नामों की श्रृंखला पालि तथा हिन्दी भाषा में है। सभी नाम भगवान के गुणवाची हैं जिनका बोध हर विपश्यी साधक को होना चाहिए।
H65 भगवान बुद्ध के उपस्थाक आनन्द 2011, पृष्ठ 222, र. 100/-
"इस पुस्तक में उपस्थाक आनंद का जीवन चरित, धर्म के प्रसार में उनके कार्य तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान तथा शिक्षाओं को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने में उनके योगदान का वर्णन है।"
H66 जीने की कला 2011, पृष्ठ 180, र. 125/-
"यह पुस्तक स. ना. गौयन्का के लेखों तथा प्रवचनों पर आधारित है। विपश्यना साधना की भूमिका देने के साथ-साथ यह भी बताती है कि कैसे इस तपस्वी का प्रयोग समस्याओं को सुलझाने में किया जा सकता है, कैसे हम अपनी असामान्य अन्तःशक्ति का विकास कर सकते हैं।"
H67 परम तपस्वी श्री रामसिंह जी 2011, पृष्ठ 144, र. 110/-
"इस पुस्तक में एक वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारी तथा विपश्यना के सहायक आचार्य रामसिंहजी के जीवनचरित और उदार प्रकृति का वर्णन है। कारागारों में विपश्यना के प्रयोग के वे प्रेरक शक्ति थे।"
H68 भगवान बुद्ध की अयुपासिकाएँ सुखुत्तरा एवं सामावती तथा उत्तरानन्दमाता 2011, पृष्ठ 44, र.

H105 स्वर्णजटित रत्न 2020, पृष्ठ 128, रु. 75/-
इस पुस्तक में गौयन्काजी द्वारा पाठ किये गये बुद्ध वचनों का हिन्दी अनुवाद तथा उनके स्वरचित दोहे भी हैं। इस पुस्तक से विपश्यनी साधकों को बुद्धवचन तथा गुरुजी के दोहों के अर्थ समझने में सहायता मिलेगी।

H106 घर-घर में पालि 2020, पृष्ठ 100, रु. 65/-
इस पुस्तक में पालि भाषा के बारे में, तिपिटक के बारे में जिसमें बुद्ध की शिक्षा का सार संनिहित है। विपश्यना विशेषण विन्यास द्वारा संचालित पालि पाठ्यक्रमों का व्योरा तथा इनमें भाग लेने वाले कुछ चुने हुए साधक विद्यार्थियों के अनुभव वर्णित हैं।

H107 विपश्यना पत्रिका संग्रह भाग - 10 2021, पृष्ठ 280, रु. 150/-
इस पुस्तक में विपश्यना पत्रिका में छपे लेखों का ही संग्रह है। भूमिका है। इस भाग में जुलाई १९९८ से जून २००१ तक के लेख संगृहीत हैं।

H108 सरल पालि व्याकरण 2021, पृष्ठ 126, रु. 75/-
विपश्यना विशेषण विन्यास द्वारा प्रकाशित 'प्रारंभिक पालि' पुस्तक में पालि व्याकरण एवं 'प्रारंभिक पालि की कुंजी' में हर पाठ पर आधारित अभ्यास हैं। प्रारंभिक पाठों के उदाहरणों में हर संज्ञा की विभक्ति और वचन को दर्शाया गया है, जिससे हिंदी अनुवाद को समझने में सहायता होगी।

H110 कुमार कस्सप 2022, पृष्ठ 36, रु. 45/-
इस पुस्तक में बुद्ध के कुशल वक्ता भिक्षु श्रावकों में अग्र 'कुमार कस्सप' जीवनचरित वर्णित है।

H111 सूचनिका-अदुकथा भाग - 2 (अजिल्द) 2022, पृष्ठ 490, रु. 590/-
सूचनिकात खदुकनिकाय का एक ग्रंथ है। इस पुस्तक में कैसे मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है। इस पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है। विपश्यना विशेषण विन्यास से अदुकथा साहित्य की हिन्दी में छपने वाली पुस्तकों में यह द्वितीय पुस्तक है।

H112 सूचनिका-अदुकथा भाग - 2 (सजिल्द) 2022, पृष्ठ 490, रु. 890/-
द्वितीय सूचनिकात अदुकथा भाग-2 (अजिल्द)

ENGLISH PUBLICATIONS

E01 Sayagi U Ba Khin Journal 1991, 368 pages. Rs 385/-
“This journal commemorates Sayagi's exemplary life and teachings. It contains his discourses, biographical sketches of his life and the lives of the teachers who preceded him as well as articles on various aspects of Vipassana.”

E02 Essence of Tipitaka 1995, 232 pages. Rs 255/-
A concise guide to the voluminous teachings of the Buddha contained in the Pali Canon.

E03 The Art of Living 1988, 176 pages. Rs 165/-
A full-length study of the teaching of Vipassana useful both for meditators and non-meditators alike.

E04 The Discourse Summaries 1987, 100 pages. Rs 115/-
“Summaries of the evening discourses by S. N. Goenka given during a 10-day course of Vipassana.”

E05 Healing the Healer 1991, 32 pages. Rs 40/-
It describes the benefit of Vipassana to those who are serving in the medical profession.

E06 Come People of the World 1989, 48 pages. Rs 50/-
Translations of selected Hindi couplets from Goenkaji's chantings.

E07 Gotama the Buddha: His Life & His Teaching 1992, 44 pages. Rs 75/-
“A brief sketch of the life and teaching of the Buddha and a description of the six historical Councils.”

E08 The Gracious Flow of Dharm 1994, 80 pages. Rs 65/-
“Condensed from three-day public talks of S. N. Goenka explaining the true meaning of Dhamma (Dharma in Sanskrit), which has now been mistakenly used to refer to 'sect' or 'sectarianism'.”

E09 Discourses on Satipatthana Sutta 1999, 136 pages. Rs 100/-
“Evening discourses by S.N. Goenka during the 8-day course of meditation during which he expounds the Mahasatipatthana Sutta.”

E10 The Wheel Of Dhamma Rotates (New) 2012, 368 pages. Rs 850/-
A concise informative compilation on the Vipassana Centres in India and around the world with pictures.

E11 Vipassana Its Relevance to the Present World 1994, 152 pages. Rs 165/-
A collection of papers presented at the International Seminar sponsored by V.R.I. in New Delhi in April 1994. The papers focus on Vipassana's impact in the fields of education, prison reforms, improved management in business and Government.

E12 Dharm - Its True Nature 1995 86 pages. Rs 200/-
A collection of papers presented at the International Seminar sponsored by V.R.I. at Dhamma Giri, Igatpuri in May 1995.

E13 Vipassana - Addictions & Health, 1989 1990, 88 pages. Rs 155/-
A collection of papers presented at the International Seminar sponsored by V.R.I. at Dhammagiri, Igatpuri in 1989. It focuses on the beneficial effects of Vipassana on drug addicts and general health.

E14 The Importance of Vedana & Sampajanna, 1990 1990, 136 pages. Rs 165/-
This covers the important topic of the Buddha's teaching 'Vedana and Sampajanna' in great detail.

E16 Pagoda Seminar, Oct. 1997 1998, 140 pages. Rs 80/-
The papers presented at the time of the foundation-stone laying ceremony of the Grand Vipassana Stupa being built near Mumbai.

E17 A Re-appraisal of Patanjali's Yoga-Sutras 1995, 138 pages. Rs 155/-
“Patanjali, the author of Yoga Sutras wrote his scholarly works a few centuries after the Buddha, and has drawn heavily from the teachings of the Buddha.”

E18 The Manuals Of Dhamma 1999, 296 pages. Rs.310/-
“This book contains the English translations of Venerable Ledi Sayadaw's authoritative essays on the essence of Buddha's teachings.”

E19 Was the Buddha a Pessimist ? 2001, 76 pages. Rs 65/-
The Buddha was not a pessimist. This is explained in detail with examples.

E20 Psychological Effects of Vipassana on Tihar Jail Inmates 1995, 60 pages. Rs 90/-
Vipassana has been adopted as a prison reform technique in the largest jail in India, the Tihar Jail. The book gives detailed report of the scientific studies carried out to assess the impact of Vipassana meditation on the prisoner's mental health.

E21 Effect of Vipassana Meditation on Quality of Life 2002, 64 pages. Rs 100/-
“Research analysis and relevant statistics are covered in this study by Dr. Amulya Khurana and Prof. P. L. Dhar”

E22 For the Benefit of Many 2002, 208 pages. Rs 220/-
This book contains a valuable compilation of Goenkaji's talks and question-answer sessions.

E23 Manual of Vipassana Meditation (U Ko Lay) 2002, 132 pages. Rs 95/-
This book throws light on the scientific aspect of the Buddha's Teaching.

E24 Realising Change 2003, 248 pages. Rs 245/-
This book featuring accounts by Vipassana practitioners leading everyday lives, aims to make Vipassana both better known and more clearly understood.

E25 The Clock of Vipassana Has Struck 2003, 248 pages. Rs 150/-
This volume celebrates Sayagi U Ba Khin's exemplary life. It contains a collection of his writings and discourses, a biological sketch of his life and the lives of the teachers who preceded him, and is woven together with an extensive interview with his reknowned disciple, S. N.Goenka.

E26 Meditation Now: Inner Peace Through Inner Wisdom 2003, 128 pages. Rs 125/-
“A collection of articles by Goenkaji commemorating his tour of North America in 2002 including The Universal Message of Peace (Millennium World Peace Summit, New York), The Meaning of Happiness (World Economic Forum, Davos, Switzerland) etc.”

E27 S. N. Goenka at the United Nations 2003, 20 Pages. Rs. 55/-
Talks given by Goenkaji at United Nations on a) The Universal Dhamma. b) The subject which put the teaching of the historical Buddha in a modern perspective.

E32 The Caravan of Dhamma 2004, 192 pages, Rs. 110/-
“Diary of S. N. Goenka's 'Meditation Now' Tour of Europe and North America, April 10 to August 15, 2002.”

E33 The Gem Set in Gold 2006, 128 pages, Rs. 150/-
“It is an English translation of all the Pali and Hindi chantings in the ten-day Vipassana course and includes glossary of Pali words.”

E34 Peace Within Oneself for Peace in the World 1998, 24 pages, Rs. 50/-
In this booklet Sri S.N. Goenka shows that unless one has peace within oneself there can be no peace in the world.

E35 Mahasatipatthana Sutta (Pali - English) 1985, 112 pages. Rs 120/-
An annotated translation of 'Mahasatipatthana Sutta', the primary discourse in which the Buddha described the practice of meditation in detail.

E36 Pali Primer (Pali - Grammar) 1994, 164 pages. Rs 130/-
A guide to learn the Pali language.

E37 Key to Pali Primer (Pali - Grammar) 1998, 80 pages. Rs 65/-
“Gives answers to the test questions in 'Pali Primer'” An aid in learning

E38 The Buddha's Non-Sectarian Teaching 2007, 24 Pages, Rs. 40/-
Deals with this book the Buddha's practical teaching of Vipassana Which is not only universal but also absolutely non-sectarian this technique of meditation is for all irrespective of cast, creed, religion, ethnic group and nationality.

E39 Acharya S. N. Goenka: An Introduction 2007, 24 Pages, Rs. 40/-
This book gives a brief life sketch of Acharya Satyanarayan Goenka and the honours he received from various countries.

E40 Value Inculcation Through Self-Observation 2007, 72 Pages, Rs. 60/-
“This book contains a detailed analysis on how Vipassana can play a beneficial role in the betterment of the current education system.”

E42 Pilgrimage to the Sacred Land of Dhamma 2009, 150 pages, Rs. 1250/-
This book is a collection of beautiful photographs that were taken during several pilgrimages to Myanmar led by Acarya Satyanarayan Goenka. Besides an introduction to vipassana and an article on the significance of Pagoda it also has several other articles by Sri Satyanarayan Goenka.

E43 An Ancient Path 2009, 180 pages, Rs. 190/-
This book by Paul R. Fleishman is a collection of talks given to different audiences in different countries.

E44 Vipassana Meditation and the Scientific World View 2010, 36 pages, Rs. 40/-
This covers the Important topic of Awareness of the meaning of the rising and passing of body sensations. It is established as the meditative gateway to the experience of reality, as defined both by the Buddha, and by the scientific world-view.

E45 The Path of Joy 1993, 42 pages, Rs. 200/-
It is a very useful book for teaching Ānāpān to the children through picture.

E46 The Great Buddha's Noble Teaching's (OSV) Small 2011, 136 Pages, Rs. 285/-
The purpose of this book is to give a introduction about Vipassana meditation, quintessence of the Buddha's teaching. It also contains information on life of the Buddha, stories of the people who benefitted from the practice of Vipassana meditation.

E47 Vipassana Meditation & its Relevance to the World (Cofee Table) 2011, 156 pages, Rs. 800/-
A collection of papers presented at the International Seminar sponsored by V.R.I. in New Delhi in April 1994. The papers focus on Vipassana's impact in the fields of education, prison reforms, improved management in business and Government.

E48 The Great Buddha's Noble Teaching's (OSV) H.B. Big 2011, 256 Pages, Rs. 750/-
The purpose of this book is to give a brief introduction about Vipassana meditation, quintessence of the Buddha's teaching. It also contains information on life of the Buddha, stories of the people who benefitted from the practice of Vipassana meditation, six historical Councils, chain of teachers after the Buddha and spread of Vipassana through pictorial presentation.

E49 Chronicles Of Dhamma 2012, Pages 264, Rs. 260/-
“Chronicles of Dhamma” presents a selection of articles published in Vipassana Newsletters over the years. They are organized in broad thematic groups: such as ‘Vipassana Teachings’; ‘Messenger of Dhamma’; ‘In the Footsteps of the Buddha’; ‘Applied Dhamma’; and ‘The Spread of Dhamma’.

E50 Views On Vipassana 2015, 96 Pages, Rs. 70/-
The seven articles are in this book i.e. What Senior Administrators say about Vipassana, What Muslims say about Vipassana, What Christians say about Vipassana, Vipassana in Government, Vipassana: An Art of Corporate Management, Drug addiction and therapy: A Vipassana Perspective and Vipassana in Prisons.

E51 Be Happy! 2015, 80 Pages, Rs. 320/-
The Life Story of Meditation Teacher S. N. Goenka.

E52 Three Important Papers: Defence Against External Invasion, How to Defend the Republic, Why was the Sakyan Republic Destroyed 2016, 48 Pages, Rs. 40/-
The three well researched papers by Goenkaji deal with how

to defend external invasion, how to defend the republic as also how to deal with the causes that led to the destruction of the Sakyani republic.

E53 Newsletter Collections Part 1 2016, Pages 152, Rs. 95/- It contains selected articles written by Guruji and other meditators for the Vipassana Newsletter between July 1990 and Oct 1993. It also contains an account of Goenkaji's visit to Sri Lanka and his 1991 world tour.

E54 Newsletter Collections Part 2 2016, Pages 180, Rs. 120/- It contains selected writings of Goenkaji and other meditators like Paul Fleishman that appeared in Vipassana Newsletter between Jan. 1994 and Dec. 1997.

E55 Newsletter Collections Part 3 2016, Pages 184, Rs. 115/- It contains selected writings of Goenkaji and other meditators that appeared in Vipassana Newsletter between Jan. 1998 to Dec. 1999.

E56 Newsletter Collections Part 4 2017, Pages 208, Rs. 140/- It contains selected writings of Goenkaji and other meditators that appeared in Vipassana Newsletter between Jan. 2002 to Dec. 2003.

E57 Dhamma Treasures (Living a Life Of Dhamma) 2019, Pages 344, Rs. 350/- “Dhamma Treasures is a series of books containing primarily Goenkaji's articles/discourses on various aspects of Vipassana coupled with questions & answers and inspirational examples of senior meditators. “Living a Life of Dhamma” is a first book in this series guiding students on how to apply Vipassana in daily life.

E58 The Buddha as Depicted in the Tipitaka Vol-1 2019, Pages 344, Rs. 350/- “Mr. S. N. Goenka, Principal Teacher of Vipassana meditation, faced some initial hesitation before joining his first Vipassana course due to indoctrination about the Buddha's teachings received by him since his childhood. In the words of Mr. Goenka, “The Tipitaka is like a vast, captivating garden containing beautiful flowers of different hues and fragrances. I have plucked a few flowers from that garden and have woven them into a garland.

E59 Newsletter Collections Part -5 2019, Pages 224, Rs. 160/- It contains selected writings of Goenkaji and other meditators that appeared in Vipassana Newsletter between Jan. 2000 to Dec. 2001.

E60 The Buddha as Depicted in the Tipitaka Vol-2 2019, Pages 344, Rs. 420/- “Mr. S. N. Goenka, Principal Teacher of Vipassana meditation, faced some initial hesitation before joining his first Vipassana course due to indoctrination about the Buddha's teachings received by him since his childhood. In the words of Mr. Goenka, “The Tipitaka is like a vast, captivating garden containing beautiful flowers of different hues and fragrances.

E61 Kathāsāllāpikkhā [Exercises in Pāli Conversation] 2021, Pages 180, Rs. 240/-

Gujrati Publications

- G01 प्रवचन सारांश** 1995, पृष्ठ 84, रु. 60/-
देखें हिन्दी पुस्तक “प्रवचन सारांश”
- G02 विपश्यना शा माटे? (पुस्तिका)** पृष्ठ 8, रु. 2/-
इस लघु पुस्तिका में विपश्यना साधना के द्वारा मन को शांत व संतुलित रखकर स्वयं भी सुख-शांतिपूर्वक जीएं तथा औरों को भी सुख-शांतिपूर्वक जीने दें इसके बारे में समझाया है तथा विपश्यना-साधना शिविर की भी जानकारी दी है।
- G03 धर्म: आदर्श जीवननो आधार** 2004, पृष्ठ 120, रु. 70/-
देखें हिन्दी पुस्तक “धर्म: आदर्श जीवन का आधार”
- G04 महासतिपट्टानसुत्त (अनुवाद सहित)** 2001, पृष्ठ 58, रु. 75/-
देखें हिन्दी पुस्तक “महासतिपट्टानसुत्त भाषानुवाद”।
- G05 जगो अंतर्बोध** 2001, पृष्ठ 206, रु. 140/-
देखें हिन्दी पुस्तक “जगो अंतर्बोध”
- G06 धारण करे तो धर्म** 2001, पृष्ठ 192, रु. 80/-
देखें हिन्दी पुस्तक “धारण करे तो धर्म”
- G07 जगो पावन प्रेरणा** 2004, पृष्ठ 222, रु. 105/-
देखें हिन्दी पुस्तक “जगो पावन प्रेरणा”
- G08 क्या बुद्ध दुःखवादी थे?** 2004, पृष्ठ 76, रु. 55/-
देखें हिन्दी पुस्तक “क्या बुद्ध दुःखवादी थे”
- G09 निर्मल धारा धर्म की** 2004, पृष्ठ 160, रु. 70/-
देखें हिन्दी पुस्तक “निर्मल धारा धर्म की”
- G10 मंगल जगो गृही जीवन में** 2004, पृष्ठ 112, रु. 55/-
देखें हिन्दी पुस्तक “मंगल जगो गृही जीवन में”
- G11 बुद्धजीवन-चित्रावली** 2008, पृष्ठ 72, रु. 330/-
देखें हिन्दी पुस्तक “बुद्धजीवन-चित्रावली”

- G12 लोक गुरु बुद्ध** 2008, पृष्ठ 16, रु. 15/-
देखें हिन्दी पुस्तक “लोक गुरु बुद्ध”
- G13 भगवान बुद्ध की साम्प्रदायिकता-विहीन शिक्षा** 2010, पृष्ठ 20, रु. 35/-
देखें हिन्दी पुस्तक “भगवान बुद्ध की साम्प्रदायिकता-विहीन शिक्षा”
- G14 सम्राट अशोक के अभिलेख** 2012, पृष्ठ 176, रु. 75/-
देखें हिन्दी पुस्तक “सम्राट अशोक के अभिलेख”
- G15 खुशियों की राह** 2015, पृष्ठ 40, रु. 150/-
देखें हिन्दी पुस्तक “खुशियों की राह”
- G16 आत्म-कथन भाग-1** 2018, Pages 120, रु. 60/-
देखें हिन्दी पुस्तक “आत्म-कथन भाग-1”
- G17 राजधर्म** 2018, पृष्ठ 80, रु. 55/-
देखें हिन्दी पुस्तक “राजधर्म”
- G18 पातञ्जल योग: एक सार्वजनिक प्रवचन** 2018, Pages 32, रु. 30/-
देखें हिन्दी पुस्तक “पातञ्जल योग: एक सार्वजनिक प्रवचन”
- G19 जीने की कला** 2021, पृष्ठ 256, रु. 195/-
देखें हिन्दी पुस्तक “जीने की कला”
- G20 आत्म-कथन भाग-2** 2022 पृष्ठ 196, रु. 160/-
देखें हिन्दी पुस्तक “आत्म-कथन भाग-2”

Bengali Publications

- B01 प्रवचन सारांश** 2007, 136 pages, Rs. 65/-
देखें हिन्दी पुस्तक “प्रवचन सारांश”
- B02 Dharam: Adarsh Jivan ka Adhar** 2008, 124 pages, Rs. 60/-
देखें हिन्दी पुस्तक “धर्म: आदर्श जीवन का आधार”
- B03 महासतिपट्टानसुत्त** 2011, 200 pages, Rs. 90/-
देखें हिन्दी पुस्तक “महासतिपट्टानसुत्त भाषानुवाद”।

Punjabi Publications

- P01 धर्म: आदर्श जीवन का आधार** 2012, पृष्ठ 114, रु. 50/-
देखें हिन्दी पुस्तक “धर्म: आदर्श जीवन का आधार”
- P02 निर्मल धारा धर्म की** 2012, पृष्ठ 168, रु. 70/-
देखें हिन्दी पुस्तक “निर्मल धारा धर्म की”
- P03 मंगल जगो गृही जीवन में** 2014, पृष्ठ 112, रु. 50/-
देखें हिन्दी पुस्तक “मंगल जगो गृही जीवन में”
- P04 किसानगोतमी** 2014, पृष्ठ 40, रु. 30/-
देखें हिन्दी पुस्तक “किसानगोतमी”

Rajasthani Publications

- R02 जगो लोगो जगत रा** 1988, पृष्ठ 260, रु. 45/-
पू. गुरुजी द्वारा प्रणीत दोहों का एक अमूल्य संग्रह। साधकों तथा अन्यो द्वारा प्रशंसित।
- R03 परिभाषा धरम री** 2006, पृष्ठ 36, रु. 10/-
इस पुस्तक में पूज्य गुरुजी द्वारा अपनी मातृभाषा में दिया गया एक सार्वजनिक धर्म प्रवचन है।

Malayalam Publications

- Mal01 Pravachan-Saransh** 2008, 110 pages, Rs. 45/-
See English Book “The Discourse Summaries”
- Mal02 The Gracious Flow of Dharm** 2010, 104 Pages, Rs. 60/-
See English Book “The Gracious Flow of Dharm”
- Mal03 Mahasatipatthana Sutta** 2021, 176 pages, Rs. 165/-
See English Book “Mahasatipatthana Sutta”

Tamil Publications

- T01 The Art of Living by William Hart** 2003, 180 pages, Rs. 135/-
See English Book “The Art of Living by William Hart”
- T02 The Discourse Summaries** 2005, 108 pages, Rs. 60/-
See English Book “The Discourse Summaries”
- T03 The Gracious Flow of Dhamma** 2005, 100 pages, Rs. 55/-
See English Book “The Gracious Flow of Dharm”

Telugu Publications

- TL01 Mangal Jage Grihi Jivan Men** 2007, 120 pages, Rs. 55/-
It is explained in this book, based on the teaching of the Buddha, how harmony can be established in the house holder's life.

Urdu Publications

- Ur01 जीने का हुनर** 2009, पृष्ठ 218, रु. 75/-
देखें हिन्दी पुस्तक “जीने की कला”

Others Publications

- OT01 The Global Pagoda Souvenir 29 Oct.2006 (English & Hindi)** 2006, 286 pages, Rs. 60/-
This souvenir brought out in 2006 contains several very important articles, one being the excerpts of Goenkaji's message to meditators in the one-day course at the Global Pagoda on Oct 1, 2006 the first ever course within the completed main dome.

- OT02 विश्व विपश्यना स्तूप का संदेश (हिंदी, मराठी, अंग्रेजी)** 2009, पृष्ठ 32, रु. 35/-
इस पुस्तक में विश्व विपश्यना स्तूप (ग्लोबल पगोडा) का संदेश विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काजी ने गाथाओं के माध्यम से दिया है।
- OT03 The Path of Joy (German)** 1993, 44 pages, Rs. 300/-
See English Book “The Path of Joy”.
- OT04 The Path of Joy (Italian)** 1993, 44 pages, Rs. 300/-
See English Book “The Path of Joy”.

Portuguese Publications

- Por01 The Path of Joy** 2013, 48 pages, Rs. 300/-
See English Book “The Path of Joy”.

Duch Publications

- Du01 The Path of Joy** 1993, 48 pages, Rs. 300/-
See English Book “The Path of Joy”.

French Publications

- F01 Gotama the Buddha : His Life and His Teaching** 2004, 58 pages, Rs. 50/-
See English Book “Gotama the Buddha : His Life and His Teaching”.
- F02 Meditation Now: Inner Peace Through Inner Wisdom** 2004, 152 pages, Rs. 80/-
See English Book “Meditation Now: Inner Peace Through Inner Wisdom”.
- F03 Path Of Joy** 1993, 48 pages, Rs. 300/-
See English Book “The Path of Joy”.
- F04 Pour Le Bien Du Plus Grand Nombre (French) (For the Benefit of Many)** 2011, 208 pages, Rs. 235/-
See English Book “For the Benefit of Many”.
- F05 The Discourse Summaries** 2016, 128 pages, Rs. 105/-
See English Book “The Discourse Summaries”.
- F06 Discourses on Satipaṭṭhāna Sutta** 2016, 140 pages, Rs. 115/-
See English Book “Discourses on Satipaṭṭhāna Sutta”.
- F07 Mahāsātipaṭṭhāna Sutta** 2016, 116 pages, Rs. 100/-
See English Book “Discourses on Mahāsātipaṭṭhāna Sutta”.
- F08 The Clock of Vipassana Has Struck** 2016, 264 pages, Rs. 210/-
See English Book “The Clock of Vipassana Has Struck”.
- F09 Come People of the World** 2015, 32 pages, Rs. 50/-
See English Book “Come People of the World”.
- F10 Soyez Heureux (Be Happy)** 2018, 84 Pages, Rs. 275/-
See English Book “Be Happy”.

Spanish Publications

- SP01 Para Beneficio De Muchos (For the Benefit of Many)** 2006, 344 pages, Rs. 190/-
See English Book “(For the Benefit of Many)”.
- SP02 El arte de vivir (The Art of Living)** 2009, 238 pages, Rs. 130/-
See English Book “The Art of Living”.
- SP03 The Path of Joy** 1993, 40 pages, Rs. 300/-
See English Book “The Path of Joy”.

Pali Verses by Shri S. N. Goenka (Books)

- BU01 बुद्धसहस्रनामावली (पालि)** 1998, पृष्ठ 64, रु. 15/-
Mr. S. N. Goenka's creativity in composing verses in Hindi and Rajasthani arose and along with it arose the Dhamma inspiration to compose verses in Pali. Thus he has written Buddha's name in Pali verses. There are thousand name of the Buddha.
- BU02 Buddhasahassanamavali (Roman), (Myanmar), (Thai), (Sri Lankan), (Mongolian),** 1998, 64 pages, Rs. 15/-
Mr. S. N. Goenka's creativity in composing verses in Hindi and Rajasthani arose and along with it arose the Dhamma inspiration to compose verses in Pali. Thus he has written Buddha's name in Pali verses. There are thousand name of the Buddha.
- BU08 Buddhagunagathavali (Devanagari, Roman, Myanmar)** 1999, 170 pages, Rs. 30/-
Mr. S. N. Goenkaji has written Buddha's qualities in Pali verses. He has honoured the Buddha, in great reverence, by composing one thousand verses, extolling the many attributes, virtues of the Buddha. For easy and felicitous recitation, each stanza is composed of four lines, each line being made up of eight words.